

CIN No. : L27I0IWB2002PLC094979

Date: 07 May, 2024

10
The Listing Department
BSE Limited
P. J. Towers, 25 <sup>th</sup> floor
Dalal Street,
<u> Mumbai – 400 001</u>

Corporate & Communication Office : SKP HOUSE 132A, S.P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026 Telephone : +91-33-4016 8000/8100 Fax : +91-33-4016 8107 E-mail : info@ankitmetal.com, Web : www.ankitmetal.com

Works : P.O.-Jorehire, P.S.-Chhatna, Dist.-Bankura, Pin-722137 West Bengal Telephone : (03242) 280593/280594

The Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza Bandra Kurla Complex <u>Mumbai – 400 051</u>

Ref: Scrip Code 532870

<u> Ref: Scrip Symbol – ANKITMETAL</u>

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation for Public Announcement made pursuant to order passed by the National Company Law Tribunal under section 13 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) for Ankit Metal & Power Limited, which is currently undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP)

То

<u>Ref: Compliance/Disclosure requirements pursuant to Regulation 30(2) read</u> with sub-clause 16(d) of Para A of Part A of Schedule III of Securities and <u>Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements)</u> <u>Regulations, 2015</u>

With reference to the captioned matter and in continuation of our earlier communication vide letter dated 03 May, 2024, this is to inform you that a Public Announcement has been made in accordance with Section 15 of the IBC read with regulations framed thereunder, pursuant to the Order dated 03 May, 2024 passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (Hon'ble NCLT) for Ankit Metal & Power Limited (Company).

In lieu of the aforesaid, copy of the newspaper advertisements for public announcement dated 05 May, 2024, published in Financial Express (English language), Ekdin (Bengali language) and Janasatta (Hindi language), are attached along with this letter for your kind reference and records.

Thanking You

Yours Sincerely,

For, Ankit Metal & Power Limited

Sujal Dutta Company Secretary & Compliance Officer Encl: As Above



#### **FE SUNDAY**

## **NEWS**

# ELECTION PITCH Modi vows action against corruption

#### **INDIA bloc leaders** neck-deep in corruption, says PM

#### PRESS TRUST OF INDIA Sisai (Jharkhand), May 4

PRIME MINISTER NARENDRA Modion Saturday said the NDA government has "unmasked" corrupt forces, and all those who indulged in corruption would face action under law in the next five years. Hitting out at jailed former Jharkhand CM Hemant Soren without taking his name, Modi said leaders of the Congress and the Opposition INDIA bloctake outrallies in support of the corrupt.

"The former Jharkhand CM is behind bars for corruption; Modi is committed to wipe out the menace. In the next five years, all those who indulged in corruption will face legal action," he said at a poll rally in Gumla's Sisai to campaign for BJP candi-



PM Narendra Modi addresses an election rally in Jharkhand on Saturday

children died due to starvation.

"Congress' shahi (royal)

date Samir Oraon from the Lohardaga Lok Sabha seat.

regime under Sonia Gandhi-"The INDIA bloc leaders, neck-deep in corruption, hold Manmohan Singh used rallies, including in Delhi and to lock foodgrains in Ranchi, voicing support for corgodowns and leave those to rupt people, which reveals their rot, while tribal children lost true character," he said. Modi lives due to hunger... Now, also blamed Congress for the whatever the royal family "backwardness" of tribal dissays, no force on earth can tricts, alleging that food grains stop free ration delivery to used to rot in godowns during the poor; this is Modi's guarthe UPA regime, while tribal antee," Modi asserted.

## Karnataka MLA HD Revanna held in kidnapping case

#### PRESS TRUST OF INDIA Bengaluru, May 4

KARNATAKA JD(S) MLA H D Revanna was taken into custody on Saturday by sleuths of the Special Investigation Team, minutes after a court in Bengaluru rejected his anticipatory bail plea in a kidnapping case, officials said. The case was registered against Revanna, a former

minister and son of former PM HD Deve Gowda, and his confidant Sathish Babanna in Mysuru on Thursday night for allegedly abducting a woman. The case was registered on a

complaint by the woman's son, who also alleged that his mother was sexually abused by Revanna's son and the BJP-JD(S) candidate for Hassan Lok Sabha seat Prajwal Revanna.

#### **Blue Corner Notice likely** against Prajwal Revanna

**KARNATAKACM** 

**SIDDARAMAIAH** on Saturday was informed by officials of the Special Investigation Team probing the alleged sex scandal involving Prajwal Revanna that there is a possibility of CBI issuing a Blue Corner Notice against the Hasssan MP. The CM held an "important meeting" with SIT

officials, during which he instructed that immediate action be taken to arrest

"We will proceed for arrest with appropriate measures. There is a possibility of CBI issuing a Blue Corner Notice, which will speed up the investigation,"the officials told the CM, according to a release from his office. PTI

## Criminal cases against 21% contesting 4th phase of polls

#### PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, May 4

**OUT OF THE** 1,710 candidates contesting in the fourth phase of the Lok Sabha polls, 21% have declared criminal cases against themselves and 24 candidates have declared zero assets, as per the Association for Democratic Reforms report.

The ADR and The National Election Watch analysed the self-sworn affidavits of 1,710 out of 1,717 candidates, who are contesting in the Lok Sabha elections 2024 Phase IV on May 13. A total of 360 candidates have declared criminal cases against them. Emphasising the disparities amongst the financial backgrounds of the candidates with the richest candidate in the fray is Dr Chandra Sekhar Pemmasani of Telugu Desam Partywith assets over ₹5,700 crore. Among the 360 candidates (21%) with criminal cases, 17 candidates were convicted, 11 declared cases related to murder, 30 face charges of attempted murder and 50 candidates have criminal cases related to crimes against women, with five can-



#### **CRIME IN POLITICS**

A total of 360 11 declared candidates cases related to have declared murder, 30 face criminal cases charges of against them attempted murder

50 candidates have criminal cases related to crimes against women

#### 5 candidates face charges of rape

didates facing charges of rape, the data showed.

Among the major parties, three out of three candidates from AIMIM, two out of three candidates from Shiv Sena, 10 out of 17 candidates from BRS, 35 out of 61 candidates from Congress, 40 out of 70 candidates from BJP, nine out of 17 candidates from TDP, two out of four candidates from BJD, two out of four can didates from RJD, two out of four candidates from Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray), 12 out of 25 candidates from YSRCP, three out of eight candidates from All India Trinamool Congress have declared criminal cases against themselves.

#### Tourist...

Sharma, founder of Akshar Travels that works with over 4,000 tour operators, said when

acting with local leaders, having dinner with them, and visiting party offices are offered. One private player's website shows

tour packages of three nights

and four days ranging from

₹33,000 to ₹45,000 perperson.

Sharma said the guides pro-

vided are trained and have

knowledge of heritage sites as

well as Indian politics, adding

that packages this time range

from \$500 to \$900, with hotel

chains also providing discounts.

Tourists are coming from the

US, France, Germany, Austria,

London, Muscat, Abu Dhabi,

Bahrain, Japan and also from

African countries, he said."We

haveschedules, good hotels peo-

ple can stay in, and apart from

electioneering, visitors can also

tive (of promoting election

tourism), the tourism industry

can contribute significantly to

GDP growth, said Sharma,

adding that with good market-

ing, a min 5-7 lakh tourists can

be brought for elections alone.

"I am more worried about

the reputational impact than I

am about the financial impact.

Financial impact in the scheme

If the govt takes this initia-

sightsee," said Moiz of TAFI.

seeing, attending rallies, inter-

#### FROM THE FRONT PAGE

day."The average duration has come down from 5.8 months Onion export ban lifted on robust crop prospects for stores added in Q4FY23 to around two months for the the government directed National Coopmost recent cohort of stores

are considered."Assessing transportation networks, access to major roads, and availability of reliable utilities and storage facilities is crucial for efficient operations and timely deliver ies," Ankur Bansal, co-founder and director, BlackSoil Capital said, adding selecting areas with less competition also provides advantages. Experts say if location is discreet, it is an advantage."Zepto that operates 200-250 dark stores in major cities maintains strict confidentiality about the structure and stock ing of its dark stores, viewing it as competitive advantage,"Ran dev said. Businesses also change location based on whether they can achieve the target sales within first few months."By the end of 6 months or so, we check our sales milestones to see if they are yielding the expected returns.Else the store will not be profitable, so we quickly move,' Balakumar said, adding they move or split the store when it outgrows and does more orders than expected because of market growth and growth in that pincode.

Revanna.

the company initially tested this kind of tourism in 2012, 300 tourists signed up. As per the Election Tourism India website, the 2014 LS elections saw about 5,200 tourists, including students, journalists, researchers, women's wings, heritage and history enthusiasts, and participants of cultural exchanges from nations like China, Nepal, the US, Ukraine, Japan, Germany, France, etc. The 2024 elections are set to be significant with at least 960 million voters casting the ballot for 62 political parties contesting 543 seats. Travel companies are exploring scope of commercialising the electoral process as exhibition.

"While in the 2019 general elections the interest among foreign tourists was high, this yearthe interest is much more.A lot of tourists are coming in, especially from Western countries, to experience how 1.4 billion people vote," said Abbas Moiz, national general secretary, The Travel Agents' Federation of India (TAFI), a Mumbai-based not-for-profit organisation.

There are different tour packages in which local sight-



Kotak...

#### **TENDER NOTICE**

Bank of Baroda, Facilities Management Department, Head Office, Vadodara invites sealed tender from reputed Service providers for Facility Management Services for Bank's Own Guest Houses and Residential Premises at Vadodara 390007.

Last date of submission of tender: 24/05/2024 at 15.00 hrs. For further details please visit our website: www.bankofbaroda.in/tenders/corporate-office

	PUBLIC ANN (Under Regulation 6 of the Insolve (Insolvency Resolution Process for ( FOR THE ATTENTION OF THE CREDITO	RM A NOUNCEMENT ency and Bankruptcy Board of India Corporate Persons) Regulations, 2016) IRS OF ANKIT METAL & POWER LIMITED
4	RELEVANT PA	
1	Name of corporate debtor Date of incorporation of corporate debtor	Ankit Metal & Power Limited
2		07 August 2002
10000	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Ministry of Corporate Affairs, ROC-Kolkata
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. Of corporate debtor	L27101WB2002PLC094979
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: 35, Chittaranjan Avenue, Kolkata, West Bengal 700012 Corporate Office: SKP House, 132A, Shyama Prasad Mukherjee Road, Kolkata, West Bengal - 700026 Website: https://www.ankitmetal.com/
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03 May 2024
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process	29 October 2024 (180 days from the insolvency commencement date
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Kshitiz Chhawchharia Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	C/o. B. Chhawchharia & Co., 8A & 8B Satyam Towers, 3 Alipore Road, Kolkata, West Bengal -700027 E: kshitiz@bccoindia.com (AFA valid till 22 January 2025)
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Kshitiz Chhawchharia, C/o. GT Restructuring Services LLP, Unit 1603 &1604, Eco Centre, Plot no. 4, Street Number 13, EM Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata - 700091, West Bengal E: ip.ankitmetal@gmail.com
11	Last date for submission of claims	17 May 2024 (14 days from receipt of copy of NCLT order)
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14	a) Relevant Forms and b) Details of authorized representatives are available at:	(a) https://ibbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable

hibition indefinitely, an official notestated that the move was necessitated by the overall domestic availability against prevailing international prices and global availability concerns. Officials said the decision to ban onion exports last year was to increase domestic supply against an estimated 20% decline in kharif and late kharif production."The policy had helped in maintaining stable prices till arrival of rabi-2024 crop last month," official said.

The govt had earlier put onion export under prohibited category, but it approved exports of close to 0.1 million tonne (MT) to six countries-Bangladesh, UAE, Sri Lanka, Bahrain, Mauritius, Bhutan.

In FY24, India exported around 1.8 MT

he said, adding that the bank's credit card and 811 business will be impacted by the RBI'restrictions. Talking about the exit of its former joint MD KVS Manian, Vaswani said he wanted to pursue opportunities in the financial services sector."Manian had aspirations... and wanted to pursue other opportunities in the financial sector which obviously made it a little more difficult from the timing perspective," Vaswani said. "Manian does not have anything on his hands right now, to the best of my knowledge... Obviously, you'll have to ask

Manian that question," he said. The net interest margin of the bank contracted to 5.28% in theQ4 from 5.75% in the Q4 of last year. Its advances rose 20% YoY to ₹3.9 trillion as on March 31, from ₹3.2 trillion as on March 31, 2023. Average cur-

rent deposits grew to ₹60,160 crore for Q4FY24 compared to ₹58,415 crore for same quarter last year, showing a 3% growth of. Average savings deposits grew to ₹123,457 crore for Q4FY24 compared to ₹1.1 trillion for Q4FY23 up 5% YoY. Average term deposit grew to ₹2.2 trillion for Q4FY24 compared to ₹1.6 trillion for Q4FY23 up 35% YoY. Current account saving account ratio stood at 45.5% as on March 31.

Kotak's provisions and contingencies, net of recoveries made against bad loans, were ₹264 crore, compared with ₹148 crore a year ago. These included provisions made for alternate investment funds.

#### Quick...

As per Statista, the quick commerce market in India is estimated to generate a revenue

of \$3,349 million in 2024. It is expected to exhibit compound annual growth rate of 24.33%, with projected market volume of \$9,951 million by 2029. For the demand, launching more dark stores is natural progression. Swiggy Instamart reportedly has around 500 dark stores, Blinkit and Zepto have around 400 and 340, respectively. For locations, they have to use a strategic approach, focusing heavily on proximity to highdensity urban areas. "The goal is to be close

enough to consumers to allow for rapid order fulfilment, sometimes within 15 minutes, leveraging data-driven models to optimise warehouse operations and coordinate effectively with delivery logistics," Shashank Randev, founder VC and cofounder, 100X.VC, told FE.

Dark stores are typically set

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

financialexp.epapr.in 📄 🔵 🔴 🔵

erative Consumers Federation and farmers' cooperative Nafed to initiate procurement of 0.5 MT of onion at market price as buffer from the farmers as rabi harvest has started to arrive in the market. During the last financial year, 0.64 MT of onion had been procured under PSF. Onion purchased this way is used as buffer stocking and intervention by way of simultaneous procurement and disposal to curb the possibility of price spike. The agriculture ministry recently estimated that onion production is likely to fall by 16% to 25.47 MT in the current crop year (July-June) compared to 2022-23 due to a decrease of 3.43 MT in Maharashtra, the biggest producer of the staple vegetable.

> up in back alleys or industrial complexes such that there is sizeable high-mid income populationina 3-4 km radius."Consumer behaviour is usually such that they keep switching to the business that they feel is faster, more reliable and not just cheaper. And, the reliability and speed are impacted highly by the location," Harmanpreet Singh, cofounder and managing partner, Prath Ventures, and an e-commerce expert, said. These players also have primary and secondary stores that are strategically located and may take up each other's orders depending on factors such as traffic patterns during peak hours. Industry sources say because of effective location strategy and other factors, Blinkit has seen a consistent fall in time taken by newly launched stores to reach a volume of 1,000 orders per

launched in October 2023,' Randev said. "Younger demographics are early adopters and proxies such as the number of ecommerce orders already generated in the micro market is a good indicator of the market potential and current demand," said Singh. By inclusion of nongrocery items by them, the number of stock-keeping units in dark stores is going to rise. So, availability of space is key. Atypical dark store needs 2,000-3,500 square feet with around 2,500-3,000SKUs.Even though dark stores do not need to allocate space for checkout counters, they need to stack up products so that they can be located, picked and packed quickly.

Another factor that decides location is warehousing and delivery cost. The delivery cost depends on average time to complete a delivery and average distance travelled, which are influenced by the location. "Warehousing cost includes cost of staff, picking and packing and rent. Rent constitutes a smaller

part of warehousing cost than otherelements.Hence, rent is an important factor but not as important indriving economics unlike in a customer-facing retail store," said Singh.

Other factors like ease of access for riders to the location, road infra, water clogging conditions, presence of traffic signals, parking availability and the ability to run a 20–25 people operation without impacting the neighbouring businesses,

555.20

1214.35


204.20

#### SUVs...

Currently, it's a three-door SUV, and to get to second-row seats, you have to recline first row and climb your way up, which can be inconvenient "The five-door Thar will remove that constraint, and will open the brand to families," the analyst said, adding: "This year is different because it's seeing the launch of not only traditional SUVs, but automakers are also experimenting with new SUV body styles."

1,347.56 1,271.58

	VIRINCHI LIMI	TED						
	CIN: L72200TG1990PLC011104 Registered Office: 8-2-672/5&6, 4th Floor, Ilyas Mohammed Khan Estate Road#1, Banjara Hills, Hyderabad - 34, Telangana, 040-48199999. Email: investors@virinchi.com, www.virinchi.com EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF VIRINCHI LIMITED FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (Rs. In Lacs except per equity share data)							
-	QUARTER ENDED YEAR ENDED							
SL.	Particulare					ENDED		
SL No	Particulars	31.03.2024 Audited	QUARTER ENDE 31.12.2023 Un-Audited	D 31.03.2023 Audited				
sl No 1	Particulars Total Income from Operations	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	ENDED 31.03.2023 Audited		
1		31.03.2024 Audited	31.12.2023 Un-Audited	31.03.2023 Audited	31.03.2024 Audited	ENDED 31.03.2023 Audited 31,557.38		
3	Total Income from Operations	31.03.2024 Audited 7,834.84	31.12.2023 Un-Audited 7,293.97	31.03.2023 Audited 7,911.11	31.03.2024 Audited 30,483.21	ENDED 31.03.2023		



of onion. The modal retail prices are currently ruling at ₹30/kg against ₹20/kg reported a year back. Retail inflation in onions was 36.88% in March.

The export ban in December was first intervention in onion exports since January 2021. The govt has not imposed a ban on onion exports since 2021. Meanwhile, under the price stabilisation fund (PSF),

s of Ankit Metal & Power Limited, are nereby called upon to submit their claims with proof on or before 17 May 2024 to the I Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Kshitiz	Chhawchharia
Interim Resoluti	on Professional
Ankit Metal 8	Power Limited
(IBBI/IPA-001/IP-P00358/2	2017-18/10616)
AFA valid till 2	2 January 2025
E: ip.ankitme	tal@gmail.com

The front ( Lobo) for the period and the function careful and or careful and or careful and the period	Sec U Tite U	000.20			
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period					
(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	210.01	561.61	1214.10	1,370.33	and the second sec
6 Equity Share Capital	9,396.26	9,166.26	8363.90	9,396.26	8,363.90
7 Other Equity	40		-	28467.77	24,850.61
8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)			THE REAL PROPERTY OF		
i.Basic	0.22	0.63	1.47	1.53	1.56
ii.Diluted	0.20	0.60	1.47	1.44	1.56
Votes:	CANES IN	s. 100			
to-date figures upto the 3rd quarter of respective financial years which were subject to Limited Re	wiew by the statuti	<i>// v /\uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu</i>	IG UUHUAHY.		
Systems Inc. 4. The Company and its subsidiaries operate in 4 major Segments Viz., SaaS Business (US Finter (India Fintech). 5. The above is an Extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed w Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the exchange's website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.virin	ch), IDC & IT Servie ith stock exchang fourth quarter and chi.com.	panies, viz., V ces, Health Car e under Regul I year ended N	irinchi Health ( re Services and ation 33 of SE Aarch 31, 202	I Payment & Cri BI (Listing Obl 4 is available ( (R	edit Services igations and on the stock s. in Lacs)
Systems Inc. 4. The Company and its subsidiaries operate in 4 major Segments Viz., SaaS Business (US Finter (India Fintech). 5. The above is an Extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed w Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the exchange's website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.virin 6. Standalone Financial Information of the Company is as under:	ch), IDC & IT Servie ith stock exchang fourth quarter and chi.com.	panies, viz., V ces, Health Car e under Regul I year ended M WARTER ENDER	irinchi Health ( re Services and ation 33 of SE Aarch 31, 202	I Payment & Cro BI (Listing Obl 4 is available ( (R YEAR E	edit Services igations and on the stock s. in Lacs) INDED
Systems Inc. 4. The Company and its subsidiaries operate in 4 major Segments Viz., SaaS Business (US Finter (India Fintech). 5. The above is an Extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed w Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the exchange's website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.virin	ch), IDC & IT Servis ith stock exchang fourth quarter and chi.com. 31.03.2024	panies, viz., V ces, Health Car e under Regul I year ended M UARTER ENDED 31.12.2023	irinchi Health ( re Services and ation 33 of SE Aarch 31, 202 31.03.2023	I Payment & Cri BI (Listing Obl 4 is available ( (R YEAR E 31.03.2024	edit Services igations and on the stock s. in Lacs) NDED 31.03.2023
Systems Inc. 4. The Company and its subsidiaries operate in 4 major Segments Viz., SaaS Business (US Finter India Fintech). 5. The above is an Extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed w Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the exchange's website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.virin 6. Standalone Financial Information of the Company is as under:	ch), IDC & IT Servic ith stock exchang fourth quarter and chi.com.	panies, viz., V ces, Health Car e under Regul I year ended M WARTER ENDER	irinchi Health ( re Services and ation 33 of SE Aarch 31, 202	I Payment & Cro BI (Listing Obl 4 is available ( (R YEAR E	edit Services igations and on the stock s. in Lacs) NDED
Systems Inc. 4. The Company and its subsidiaries operate in 4 major Segments Viz., SaaS Business (US Finter (India Fintech). 5. The above is an Extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed w Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the exchange's website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.virin 5. Standalone Financial Information of the Company is as under: Particulars	ch), IDC & IT Servis ith stock exchang fourth quarter and chi.com. 31.03.2024	panies, viz., V ces, Health Car e under Regul I year ended M UARTER ENDED 31.12.2023	irinchi Health ( re Services and ation 33 of SE Aarch 31, 202 31.03.2023	I Payment & Cri BI (Listing Obl 4 is available ( (R YEAR E 31.03.2024	edit Services igations and on the stock s. in Lacs) NDED 31.03.2023
<ol> <li>The Consolidated Results include results of all subsidiaries including the main contributin Systems Inc.</li> <li>The Company and its subsidiaries operate in 4 major Segments Viz., SaaS Business (US Finter (India Fintech).</li> <li>The above is an Extract of the detailed format of Annual Audited Financial Results filed w Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the exchange's website www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.virin 6. Standalone Financial Information of the Company is as under:</li> </ol>	ch), IDC & IT Servic ith stock exchang fourth quarter and chi.com. 31.03.2024 Audited	panies, viz., V ces, Health Car e under Regul I year ended M UARTER ENDED 31.12.2023 Un-Audited	irinchi Health ( re Services and ation 33 of SE Aarch 31, 202 31.03.2023 Audited	I Payment & Cri BI (Listing Obl 4 is available ( (R YEAR E 31.03.2024 Audited	edit Services igations and on the stock s. in Lacs) NDED 31.03.2023 Audited

	0.000	10.08.000	100.000000005	100000000000000000000000000000000000000
			For Virinchi   Sd/-	Limited
			M.V. Sriniva	sa Rao
Date: 03.05.2024 Place: Hyderabad		W	hole Time Dire DIN: 0081	





Date: 05 May 2024

Place: Kolkata



কলকাতা ৫ মে ২০২৪

অস্ট্রেলিয়ার জন্য খুশির আবহও

আইপিএলে ২০০ রানও যেখানে

মামলি হয়ে দাঁডিয়েছিল, সেখানে

কালকের ম্যাচটিকে ব্যতিক্রমই

বলতে হয়। ওয়াংখেড়েতে কাল

মুম্বাই,কলকাতা দুই দলই অলআউট

হয়েছে। এমন ঘটনা ৬ বছর পর

শুরুতেই উইকেট দরকার ছিল

কলকাতার। নিজের প্রথম ওভারে

ঈশান কিষানকে ফিরিয়ে সেই কাজটা

করেছেন স্টার্ক। পরের ৩ উইকেট

নিয়েছেন নিজের শেষ ওভারে। ম্যাচ শেষে স্টার্কের বোলিং ফিগার ৩.৫

ওভার.১২ ডট.৩৩ রান.৪ উইকেট.

যা তাঁর আইপিএল ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়

দলের অধিনায়ক হিলি গত মার্চেই

উত্তর প্রদেশ ওয়ারিয়র্সের হয়ে

ডব্রপিএল (মেয়েদের আইপিএল

নামে পরিচিত) খেলেছেন।

স্টার্কের স্ত্রী ও অস্টেলিয়া নারী

১৬৯ রান ডিফেন্ড করতে

প্রথম দেখা গেল।

করেছেন। এবারের

তৈরি

# আইএসএল ফাইনালে হার মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ত্রিমুকুট জয়ের স্বপ্ন অধরাই থাকল মোহনবাগানের। ২৩ বছর পর যে সুযোগ এসেছিল সবুজ-মেরুনের কাছে, তা তারা কাজে লাগাতে পারল না। ডুরান্ড কাপ, আইএসএল লিগ-শিল্ডেই সম্ভুষ্ট থাকতে হল তাদের। আইএসএলের ফাইনালে বদলা নিল মন্বই সিটি এফসি। মোহনবাগান হারল ১-২ ব্যবধানে। প্রথমার্ধে জেসন কামিংসের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে মন্বইয়ের হয়ে সমতা ফেরান হর্হে পেরেরা দিয়াস। দ্বিতীয় গোল করেন বিপিন সিংহ। সংযুক্তি সময়ে তৃতীয় গোল ইয়াকুব ভোজটাসের। এই নিয়ে দু'বার মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাইনালে গোল করলেন বিপিন। ২০২১ সালেও গোল করেছিলেন তিনি।

<u> এ</u>কদিন

হারলেও এই মাচে মোহনবাগানের অভিযোগ করার কিছই নেই। অতি বড মোহনবাগান সমর্থকও এটা বিশ্বাস করবেন, এ দিন যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে মুম্বই। দুই অর্ধেই তাদের দাপট ছিল। ম্যাচের বেশির ভাগ সময়ে বল নিয়ন্ত্রণ করেছে তারাই। নিখুঁত পরিকল্পনামাফিক ফুটবল খেলেছে। এক দিকে যেমন একের পর এক

আইপিএলে ব্যাটসম্যানদের তাণ্ডবে

বোলাররা দিশাহারা হয়ে পড়লেও

ব্যতিক্রম যশপ্রীত বমুরা। মুম্বাই

ইন্ডিয়ানসের এই ভারতীয় ফাস্ট

আক্রমণ শাণিয়েছে শুভাশিস বসর দিক থেকে, তেমনই অকেজো করে দেওয়া হয়েছে জনি কাউকোকে। খে লতে পারেননি দিমিত্রি পেত্রাতোস বা লিস্টন কোলাসোরাও। লিগ-শিল্ডের ম্যাচে যে খেলা মোহনবাগান খেলেছিল, তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না এ দিন। মম্বইয়ের কোচ পিটার ক্রাতকি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের আর নিজের তৃতীয় ওভারের শেষ বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায়

ড়েতে ৫০ উইকেট পুরণ করেন।

মুম্বাইয়ের ঘরের মাঠ ওয়াংখে

ডে স্টেডিয়ামে এর আগে ৫০

ওয়াংখেড়েতে বুমরার

বলে স্টার্ককে বোল্ড করে ওয়াংখে নারিন, মালিঙ্গার পর আছেন অমিত

আগের দিনই জানিয়েছিলেন, ফাইনালে অন্য মম্বইকে দেখতে পাওয়া যাবে। সেটাই হল। শনিবার খেলা শুরু হয় বেশ

> ধীরগতিতে। প্রথম দশ মিনিট শুধু পাস এবং মিস পাসের খেলা। দুই দলই চাইছিল মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ নিতে। কিন্তু সফল হচ্ছিল না কেউই। মুম্বইয়ের আক্রমণ তার

মিশ্র। ৪১ বছর বয়সী এই লেগ

স্পিনার এবারের মৌসুমে খেলছেন

`co'

মধ্যে কিছটা বেশিই ছিল। মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা বেশি ক্ষণ পায়ে বল রাখতে পারছিলেন না। ধরে রাখতে গেলেই মুম্বইয়ের কোনও না কোনও খেলোয়াড় এসে তা ছিনিয়ে নিচ্চিলেন।

শুরু থেকেই মুম্বইয়ের খে লোয়াড়দের প্রচুর দৌড়তে দেখা গেল। কেউ বল হারালে দাঁড়িয়ে

পড়েননি। ছুটে গিয়ে বল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। মোহনবাগানের ফুটবলারদের পায়ে বল থাকলেও কেড়ে নেওয়ার জন্য একই রকম প্রচেষ্টা দেখা যায়। ১৩ মিনিটের মাথায় একটা ভাল আক্রমণ করেছিলেন অনিরুদ্ধ থাপা। তিরির সৌজন্যে বেঁচে যায় মুম্বই। দু'মিনিট পরেই লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের কর্নার থেকে মেহতাব সিংহের হেড বাইবে যায়।

ময়দান

সঙ্গে মুম্বইয়ের আক্রমণও বাড়ছিল। মোহনবাগানের অর্ধে মৃহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনছিল তারা। শুভাশিসের দিক থেকে খেলছিলেন ছাংতে। মুম্বইয়ের খেলোয়াড়কে আটকাতে গিয়ে উপরে উঠতে পারছিলেন না শুভাশিস। ফলে লিস্টন কোলাসোর উদ্দেশে বল বাড়ানোরও কেউ ছিল না। বলের খোঁজে লিস্টনকে নীচে নেমে আসতে হচ্ছিল। মোহনবাগান রক্ষণকে বার বার বিপদে ফেলছিলেন ছাংতে। প্রথম দিকে তাঁর সেট-পিস মোটেই ভাল হচ্ছিল না। দু'টি কর্নার এবং একটি ফ্রিকিক নষ্ট করেন তিনি। তবে ৩০ মিনিটের

মাথায় তাঁর ফ্রিকিক বারে লাগে। বাঁ দিক থেকে নেওয়া শট বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে ফেলেছিল।

সবচেয়ে দামি জার্সি

বিয়াল মাদিদেব



নিজস্ব প্রতিনিধি: ওয়াংখেডে স্টেডিয়ামে রাতে নিজের শেষ ওভারে মিচেল স্টার্ক যখন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের টপাটপ (৩টি) উইকেট তুলে নিচ্ছিলেন, টিভি ক্যামেরা বাববার খুঁজে নিচ্ছিল অ্যালিসা হিলিকে। ওভারের পঞ্চম বলে ইয়র্কারে জেরাল্ড কোয়েৎজির মিডল স্টাম্প উপড়ে ফেলে স্টার্ক যখন গর্জন করতে লাগলেন, হিলি তখন বন্দী।

অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলারের সেই ট্রেডমার্ক ইয়র্কারেই ১২ বছর ওয়াংখেডেতে পর মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জয় নিশ্চিত হয়েছে। এ জয়ে মন্বাইকে লিগ পর্ব থেকে প্রায়

স্টার্ক,হিলির সম্পর্ক আবার বলতে হবে নাকি! তাঁরা স্বামী,স্ত্রী। ক্রিকেট ইতিহাসের একমাত্র দম্পতি, যাঁরা বিশ্বকাপ জয়ের অনন্য কীর্তি গড়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের 'পাওয়ার কাপল' হিসেবে পরিচিত স্টার্ক,হিলিকে এবারের আইপিএলে কালই প্রথমবার একই ভেন্যতে দেখা গেল। মানে, স্বামী স্টার্কের খেলা মাঠে বসেই উপভোগ করেছেন স্ত্রী হিলি।আইপিএল নিলাম ইতিহাসের

রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে বিক্রি হওয়া স্টার্ক কি স্ত্রীকে কাছে পেয়েই বদলে গেলেন? কাল রাতে ৩৪ বছর বয়সী তারকার বোলিং দেখ ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তো সে রকমই দাবি করা হচ্ছে। ভারতের সংবাদমাধ্যমগুলো যেটিকে বলছে 'লেডি লাক' বা 'লাকি চার্ম'। এবারের আইপিএলে কাল রাতে

'লেডি লাক' কি বদলে দিল স্টার্ককে

মুন্সাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচটির আগে স্টার্কের পারফরম্যান্স যে ছিল যাচ্ছেতাই। আগের ৮ ম্যাচে নিয়েছিলেন মাত্র ৭ উইকেট। বলার মতো পারফরম্যান্স বলতে ছিল শুধু লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে পয়লা বৈশাখের দিন ৩ উইকেট। এ ছাড়া ৪ ম্যাচে ছিলেন উইকেটশূন্য, ৪০,এর বেশি রান দিয়েছিলেন ৫ ম্যাচে। ইকোনমি রেট তো আরও ভয়ংকর; প্রায় ১২ ছুঁই ছুঁই।। তাঁর পেছনে এত টাকা ঢেলে শাহরুখ খ ানের দল ভুল করেছে কি না, তিনি আইপিএল ইতিহাসের 'সুপার ফ্লুপ মিলিয়নিয়ার' হয়ে থাকবেন কি না, এমন প্রশ্নও উঠেছিল। তবে কাল নিজস্ব কায়দার

টোয়েন্টি

ডব্রপিএল শেষ করেই অস্ট্রেলিয়া দল নিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে, আইপিএলের প্লে,অফ পর্বের আগে নিগার,ফারজানা,মারুফাদের বিপক্ষে ছন্দে ফেরার আভাস দিয়ে কলকাতা তিনটি করে ওয়ানডে আর টি, সমর্থকদের মনে যেমন স্বস্তি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে। সে সময় ফিরিয়েছেন স্টার্ক, তেমনি টি, তাই স্টার্কের খেলা দেখতে ভারতে বিশ্বকাপের যাওয়া হয়নি। আগে

সেরা।

মুম্বাই ভালো করতে না উইকেট পেয়েছেন, যা এই মাঠে পারলেও বুমরা তাঁর কাজটা ঠিকই সবচেয়ে বেশি। বুমরা কাল	মিশ্রর পরেই আছেন আরেক লেগ স্পিনার যজবেন্দ্র চাহাল। ৩৩ বছর			সাধারণ (২০১৬ সালের ইনসলভেপি আ	র্ম এ । যোষণা নাড ব্যাঙ্গরাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
		নিজস্ব প্রতিনিধি: সফল একটি	সামগ্রিকভাবে বার্সার আয় বছরে ১৭		লাসেনস) রেণ্ডলেশনসের রেণ্ডলেশন ৬ অধীনে) -এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য
	A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW	মৌসুম শেষ করার দ্বারপ্রান্তে এখন	কোটি ৫০ লাখ ইউরো।	সংক্লিন্ত	ৰিস্তারিত
		রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগা শিরোপার	বার্সার পর এই তালিকায় আছে	<ol> <li>কর্পোরেট ডেটরের নাম</li> </ol>	অন্ধিত মেটাল আন্ড পাওয়ার লিমিটেড
		পাশাপাশি চ্যান্পিয়নস লিগ	ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'র চ্যাম্পিয়নস	২. কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	৭ আগস্ট ২০০২
	States and a state of the state			৩. যে কৃর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, আরওসি-কলকাতা
	State of State of State	ফাইনালও এখন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শুধু মাঠের পারফরম্যান্সেই	পিএসজি। ক্লাবটি নাইকির কাছ থেকে ৮ কোটি ইউরো এবং প্রধান	<ol> <li>কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেডলায়ার্বিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং</li> </ol>	L27101WB2002PLC094979
		নয়, মাঠের বাইরে দারুণভাবে ঘুরছে	পৃষ্ঠপোষক কাতার এয়ারওয়েজের	<ul> <li>কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং</li> </ul>	রেজিস্টার্ড অফিস : ৩৫, চিন্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা,
	Contraction of the local division of the loc	রিয়ালের সাফল্যের চাকা। ফুটবলের	কাছ থেকে পায় ৬ কোটি ৬০ লাখ	প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২ কর্পোরেট অফিস : এসকেপি হাউস, ১৩২এ, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড,
					কলকাতা, পশ্চিমবন্ধ - ৭০০০২৬
	and the second se	তথ্য,উপাত্তভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম 'ফুটবল	ইউরো। পিএসজির পর চারটি ক্লাবই		ওয়েবসাইট : https://www.ankitmetal.com/
		বেঞ্চমার্ক' এক প্রতিবেদনে	অবশ্য ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের। এর	৬. কপোরেট ডেটরের ইনসলভেলি প্রস্তাব প্রক্রিয়া গুরুর তারিখ	0 (A 2028
	Contraction of the local division of the loc	জানিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকদের কাছ	মধ্যে সবার ওপরে আছে আর্সেনাল।	৭. ইনসলভেপি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২৯ অক্টোবর ২০২৪ (ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন)
		থেকে আয় বিচারে বর্তমানে	এরপরের তিনটি স্থান যথাক্রমে	<ul> <li>সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত</li> <li>ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্টেশন নম্বর</li> </ul>	ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া কলিক মাউছারিয়া
	A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে রিয়ালের	ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড,	হনসলভোগ পেশাদারের নাম এবং রোজস্ক্রেশন নম্বর ৯. বোর্ডের নিকট রোজস্ক্রিকত সাময়িক প্রস্তাব	রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616 থ্যাত্রে বি ছাউছারিয়া আন্তে কোং, ৮এ এবং ৮বি সতাম টাওয়ারস,
		জার্সির মূল্য সবচেয়ে বেশি। যেখানে	ম্যানচেস্টার সিটি এবং চেলসির।	পেশাসারের ঠিকানা এবং ইমেল	এবংদ্ধান হাওঁহারের আও কেন্টের এবং তার বাবে চাবিয়ারণ, ৩ আলিপর রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৭
	211		আর এ তালিকার অস্টম স্থানে আছে		ই : kshitiz@bccoindia.com (এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত)
		তারা পেছনে ফেলেছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী		১০ সাময়িক প্রস্তাব পেশ্যুপারের সহিত	ক্ষিতিজ ছাউছাবিয়া
A SIGO A		বার্সেলোনাসহ ইউরোপের অন্যান্য	বুন্দেসলিগার ক্লাব বায়ান মিউনিখ।	যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	প্রযন্ত্রে জিটি রিস্টাকচারিং সার্ভিসেস এলএলপি, ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, স্টিট নাম্বার ১৩,
		পরাশক্তিদের।	শীর্ষে থাকা রিয়ালের চেয়ে ৮ কোটি		ইএম ব্রক, সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১, পশ্চিমবঙ্গ
		ফুটবল বেঞ্চমার্কের প্রতিবেদন	ইউরো ব্যবধানে পিছিয়ে আছে		ই : ip.ankitmetal@gmail.com
		অনুসারে, রিয়াল জার্সি নিয়ে	বাভারিয়ান ক্লাবটি।	১১. দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১৭ মে ২০২৪ (এনসিএলটি অর্ডার গ্রহণের তারিখ থেকে ১৪ দিন)
		পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে	জার্সি থেকে আয় অবশ্য এ দুটি	১২. বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বতীকালীন	প্রযোজন নয়
করে চলেছেন। গত রাতে তো নতুন 🛛 মালিঙ্গাকে সাক্ষী রেখেই নতুন কীর্তি	বয়সী চাহাল ২০২২ সালে রয়্যাল		পৃষ্ঠপোষকে আটকে নেই। সাম্প্রতিক	২১ ধারার ওপধারা (৬এ) এর (৭৭) পারমেল অধানে অন্তবতাকালান প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	
এক কীর্তিও গড়ে ফেলেছেন। গড়েছেন। তবে আইপিএলে এক			সময়ে ক্লাবগুলো জার্সিকে আরও	১৩, সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনমোদিত প্রতিনিধি	প্রযোজ্য নয়
		সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস		হিসেবে কার্যুরত ইনসলুভেলি পেশাদারগণের চিহিতকরণের নাম	
		. [1] - 같이 많이 많은 것은 것 같은 것 같은 것은 것은 것은 것은 것을 가지 않는 것 같은 것을 가지 않는 것을 하는 것 같이 없다. 것 같은 것을 다 있는 것 같은 것을 다 있다. 것 같은 것 같	বৈচিত্র্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছে	(প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	
কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে শিক্ষারের রেকর্ডে মালিঙ্গা আছেন ২		에는 그렇게 않는 것 이야지 않는 것 안전에 있는 것은 것이야지 않는 것 같은 것이야지 않는 것 ?	এবং জার্সির হাতাকেও স্পন্সবদের	১৪ (ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) গ্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	(ক) https://ibbi.gov.in/home/downloads (খ) প্রযোজ্য নয়
মুম্বাইয়ের হারের ম্যাচে ৩ উইকেট 🛛 নম্বরে। এ তালিকায় শীর্ষে কলকাতা			কাছ থেকে আয়ের উৎস হিসেবে	( ) and signation anomalies in the state	(4) 464(4) -13
নিয়েছেন বুমরা। এর মধ্যে দিয়ে নাইট রাইডার্সের সুনীল নারাইন।			কাজে লাগিয়েছে। রিয়াল যেমন তিন	এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোস্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ	নির্দেশ দিয়েছে সি.পি. (আইবি) নং ৯১/কেবি/২০২৩, অঙ্কিত মেটাল অ্যান্ড
আইপিএলে দ্বিতীয় বোলার হিসেবে কলকাতার 'ঘর' ইডেন গার্ডেনে	ভেন্ধটেশকেও আউট করেছেন।	ইউরো।	মাস আগে নিজেদের হাতা	পাএয়ার লিমিটেড-এর, রাপ্টারেট ইনসলভেমি প্রস্থার পরিয়া শুরু করার চ	হাবিখ ৩ মে ২০২৪।
ওয়াংখেড়েতে ৫০ উইকেটের নারাইন এখন পর্যন্ত ৬৯ উইকেট	৫১ উইকেট নিয়ে তিনি এক মাঠে	রিয়ালের পর তালিকার দ্বিতীয়	ব্যবহারের জন্য চুক্তি করেছিল তথ্য	আঙত নেচাল অ্যান্ড পাওয়ার ।লামচেড-এর ।বানয়োগকারাগণকৈ প্রামা পেশাদাবগণের নিকট ক্রয় নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।	আনব ও দে ২০২০ । পা নথি সহ তাদের দাবি ১৭ মে ২০২৪ তারিখে অস্তবতীকালীন গ্রস্তাবক ০০০ - ০০০
মাইলফলকের দেখা পেলেন নিয়েছেন। রহস্যময় স্পিনে এখনো			প্রযুক্তিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এইচপির	আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রমাণা নথি সহ কেবল বিদ্যাতন মাধ্যমেই তাদের	র দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য
ভারতের এই পেসার। ব্যাটসম্যানদের তটস্থ করে রাখা		প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। যাদের জার্সির	সঙ্গে। বার্সেলোনা এক বছরের বেশি	নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মধ্যিমে দাখিল করতে গ	ণারেন। মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে। ক্ষিতিক চাউচাবিয়া
					ক্ষিতিজ ছাউছারিয়া অন্তর্বতীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
৩০ বছর বয়সী বুমরা কাল নারাইন সংখ্যাটিকে যে আরও			সময় ধরে এ নিয়ে কাজ করছে টিপি		অস্কিত মেটাল আন্ড পাওয়ার লিমিটেড
কলকাতার রমনদীপ সিং, মিচেল বাড়িয়ে নেবেন, তা নিশ্চিত করে		প্রস্তুতকারক নাইকি এবং স্ট্রিমিং	ভিশনের সঙ্গে। এর বাইরে জার্সি		(IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616)
স্টার্ক ও ভেন্ধটেশ আইয়ারকে বলাই যায়।	ভুবনেশ্বর কুমার, ডোয়াইন ব্রাভো ও		বিক্রি থেকে ক্লাবগুলো বিপুল	তারিখ : ৫ মে ২০২৪ স্থান : কলকাতা	এএফএ বৈধ ২২ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত ই : ip.anktmetal@gmail.com
আউট করেছেন। ইনিংসের ১৮তম আইপিএলে এক মাঠে সবচেয়ে	পীযৃয চাওলা।	। এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে	পরিমাণের আয় তো আছেই।		S. Parina and S.
Service administration of the service services and the service services and the service services and the ser		ing was and the provincial of the property.		'জয় বীরু' ও	'সপাৰমান'





তাঁর বোলিং দেখে বিস্ময়ের ঘোরে

ছিটকে ফেলে প্লে,অফ পর্বের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেছে কলকাতা।

নিজস্ব প্রতিনিধি: বলিউডে ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'জয় বীরু' সিনেমাটা কি দেখেছেন ? ফারদিন খ ান ও কুনাল খেমু অভিনীত সেই সিনেমাটা দুই বন্ধর গল্প নিয়ে। কলকাতা নাইট রাইডার্সেও এমন জয়,বীরু জুটি আছে। আর সেটা জানিয়েছেন স্বয়ং কলকাতারই সহমালিক বলিউড কিংবদস্তি শাহরুখ খান।

পুনীত সিরা পরিচালিত সেই সিনেমায় দেখা গিয়েছিল, দুই বন্ধু জয় ও বীরু মিলে এক মাফিয়া ডনের বিরুদ্ধে লড়ছে। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতার জয়, বীরু জুটির কাজটাও ঠিক তাই। ব্যাট হাতে দুজনেই ধ্বংসাত্মক। প্রতিপক্ষের বোলারদের একদম দুমড়ে,মুচড়ে দেন। কাদের কথা বলা হচ্ছে, এতক্ষণে নিশ্চয়ই আন্দাজ করে ফেলেছেন? আচ্ছা, বলেই দেওয়া যাক;আন্দ্রে রাসেল

আইপিএলে গতকাল রাতে মুন্বাই ইন্ডিয়ানসকে ২৪ রানে হারিয়েছে কলকাতা। এ ম্যাচের আগে টিভি চ্যানেল স্টার স্পোর্টসে 'নাইট ক্লাব প্রেজেন্টস;কিং খান রুলস' অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের খে লোয়াড়দের নিয়ে কথা বলেন শাহকৃথ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার

ও রিংকু সিং।

আন্দ্রে রাসেলের প্রশংসা করতে গিয়ে রিংকু সিংয়ের উদাহরণ টানেন কিংবদন্তি, 'অন্যান্য দারুণ কিছু গুণাবলীর পাশাপাশি সে (রাসেল) ছোটদের সঙ্গেও খুব ভালো। রিংকু এবং তার বন্ধন খুবই শক্তিশালী, জয়,বীরুর বন্ধুত্বের মতো। অনেক দিক থেকেই তারা আলাদা, তব তারা একে,অপরকে ভালোবাসে, ক্রিকেটার এবং মানুয হিসেবে একে,অপরকে সাহায্য



করে।' শাহরুখ রাসেলের 'অন্যান্য গুণাবলী' নিয়েও কথা বলেছেন। প্রথমত, রাসেলকে দেখে শাহরুখের 'ইউনিভার্স বস'খ্যাত ক্যারিবিয়ান সচেতনতারও প্রশংসা করেন

ক্রিস গেইলকে মনে পডে। ২০০৯ কিংবদন্তি গেইল। সালে কলকাতার হয়ে খেলেছেন এরপর রাসেলের ফ্যাশন

একদমই উল্টো। বাস্তবে সে বিনয়ী কলকাতার এই সহমালিক, 'তাকে (রাসেলকে) দেখে আমাদের ইউনিভার্স বস মিস্টার গেইলকে মনে পড়ে। সে তার মতো এবং একটা ব্যাপার খব ভালো লাগে যে সে ফ্যাশন,সচেতন। ভালো পোশাক পরতে পছন্দ করে, চুলের যত্ন নেয়। গতকাল রাতে যেমন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি দুই রঙের জুতা আছে? সে বলল, না তবে স্পাইকসের ডিজাইনার্স আছে। জানতে চাইলাম, সেণ্ডলো কি গুচির ডিজাইনার্স স্পাইকস ? সে বলল, হ্যাঁ। তার ফ্রাশন সচেতনতা আমি ভালোবাসি।'

মাঠে রাসেলকে যতটা ধ্বংসাত্মক রূপে দেখা যায়, মাঠের বাইরে কিন্তু তিনি অন্য মানুষ। শাহরুখ সে কথাও জানালেন, 'আন্দ্রের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা করতে পারি না। সে খুবই মিস্টি স্বভাবের। মাঠে সে যেমন, বাস্তবে

ও মিস্টি স্বভাবের। এমনকি নাচের সময়ও বিনয়ী। তাকে ফিট রাখা নিয়েই মূলত আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। কোনো সমস্যা হলে সে আমাদের জানায়। সে একজন দুর্দান্ত ক্রীড়াবিদ, মানুষ হিসেবেও খ ুব ভালো, বড় মাপের ক্রিকেটার।' মুম্বাইয়ের বিপক্ষে গতকাল ৭ রানে আউট হলেও এবার আইপিএলে রাসেলকে চেনা রূপেই

দেখা যাচ্ছে। ১০ ম্যাচে ৭ ইনিংসে ব্যাট করে ৩৭.২০ গড়ে ১৮৯.৭৯ স্ট্রাইক রেটে ১৮৬ রান করেছেন রাসেল, উইকেট নিয়েছেন ১১টি। কলকাতা নাইট রাইডার্সে কিস্তু

একজন 'সুপারম্যান'ও আছেন। শাহরুখ নিজেই দিলেন সেই সুপারম্যানের পরিচয়;সুনীল নারাইন, 'দলের মধ্যে আমরা তাকে সুপারম্যান বলে ডাকি। মাঠে সে কর্তৃত্বপরায়ন। সে এমন এক খে

লোয়াড়, যে বোলিং, ব্যাটিং, উইকেটকিপিং, ফিল্ডিং;যেকোনো ভূমিকা রাখতে পারে।'

২০১২ ও ২০১৪ সালে কলকাতার আইপিএল জয়ে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন নারাইন। আইপিএলে বিদেশি স্পিনারদের মধ্যে নারাইনের উইকেটসংখ্যাই সবচেয়ে বেশি (১৭২ ম্যাচে ১৭৬ উইকেট)।

কলকাতা নাইট রাইডার্সে এই দুই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও জানালেন শাহরুখ, 'একবার ভাবুন, চোটের কারণে তাদের পাচ্ছে না কেকেআর (কলকাতা নাইট রাইডার্স)। ভাবতেই কেমন যেন লাগে, মনে হয় তাদের ছাড়া কীভাবে সামলাব! তারা অনেক বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছে এবং যেভাবে দলকে সমর্থন দেয়, তারা আসলে পরিবারেরই অংশ।'

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS. Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং



# आसपास chechel

#### खबर कोना

खदानों में अधिशेष जांच और कोयला भंडार माप का आयोजन कोलकाता, ४ मई (जनसत्ता)।

#### कोयला मंत्रालय, सीआइएल और सहायक कंपनियों के मार्गदर्शन में सतर्कता इकाइयों ने सभी सहायक कंपनियों की खदानों में राष्ट्रव्यापी अधिशेष जांच और कोयला भंडारण माप का आयोजन किया। यह अभ्यास सुशासन और प्रभावी निवारक सतर्कता के लिए किया गया। सीआइएल की सात कोयला उत्पादक कंपनियों के 14 खनन क्षेत्रों में 25 से अधिक स्थानों पर सतर्कता टीमों द्वारा वेटब्रिज सीसीटीवी कैमरों और अन्य आइटी पहल का निरीक्षण किया गया। सीवीओ सीआइएल और सहायक कंपनियों के सीवीओ ने क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान निरीक्षण किया।

'मोदी को तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण में विश्वास' पटना, 4 मई (भाषा)।

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजद एवं कांग्रेस पर वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाते शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'तुष्टिकरण' की नहीं, बल्कि 'संतुष्टिकरण' की राजनीति में विश्वास करते हैं। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सिन्हा ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने तुष्टिकरण के बजाय देश के लोगों की संतुष्टिकरण का रास्ता चुना। हमारे प्रधानमंत्री तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिंकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हए कहा, वे ( राजद और उसके गठबंधन सहयोगी) अपनी वोटबैंक की राजनीति के तहत 'सनातन धर्म को निशाना बनाते हैं।

# संदेशखाली प्रकरण को साजिश बताते हुए भाजपा नेता का 'स्टिंग' वीडियो सामने आया ममता का दावा, भाजपा ने लिखी साजिश की पटकथा

#### चकदाह, ४ मई (भाषा)।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा पर संदेशखाली घटना की 'पटकथा' लिखने का आरोप लगाया और सवाल किया कि एक महिला द्वारा राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं।

बनर्जी ने नादिया जिले के चकदाह में एक चुनावी रैली में दावा किया, 'संदेशखाली की पूरी घटना पूर्वनियोजित थी। भाजपा ने इसकी अच्छी तरह से पटकथा लिखी थी। सच सामने आ गया है। मैं लंबे समय से यह कह रही हूं।' उन्होंने कहा, 'मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा है। मैं इसे जरूर देखूंगी।' शनिवार को, तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि संदेशखाली प्रकरण लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए भाजपा द्वारा रची गई एक साजिश थी। बनर्जी ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने संदेशखाली के संबंध में 'संदेश' दिया. लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि (राज्यपाल) के यौन उत्पीड़न मुद्दे पर चुप रहे।

# CHARLES STATE OF THE OWNER

संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पार्टी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि यह प्रकरण लोकसभा चनाव से पहले पश्चिम बंगाल को बदनाम करने

उक्त व्यक्ति ने वीडियो में आरोप लगाया कि अधिकारी ने उसे और क्षेत्र के अन्य भाजपा नेताओं को 'शाहजहां शेख सहित तीन तृणमूल नेताओं के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाने पद से हटाए गए कुणाल राज्यपाल के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए टीम गठित

तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की थी। संदेशखाली में राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ यौन कि भारत के इतिहास में पहले कभी भी दिल्ली में सत्तारूढ़ दल ने

कुछ खुल चुका है। मोदी–शाह, केंद्रीय एजंसियों और उनके सहयोगियों की भयावह साजिश बेनकाब हो गई है। बर्धमान-दुर्गापुर और कृष्णानगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए, मोदी ने शुक्रवार को

संदेशखाली मुद्दे पर भाजपा ने सत्ताधारी पार्टी के वीडियो को फर्जी बताया

बंगाल को बदनाम करने की भाजपा की साजिश : तृणमूल

उत्तर २४ परगना के संदेशखालि में पीड़िताओं के प्रति उदासीनता के लिए

उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं। तृणमूल के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, संदेशखाली सिंटग वीडियो देखकर मैं स्तब्ध हूं और मेरे पास शब्द नहीं हैं।भाजपा द्वारा अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए पश्चिम बंगाल की छवि धूमिल करने की बांग्ला-विरोधी कोशिश को अवश्य देखना चाहिए।

में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। के लिए तीन-चार स्थानीय महिलाओं को उकसाने' को कहा था। एजंसी ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। इसे लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चौंकाने वाले संदेशखाली सिंटग

पूरे राज्य और उसके लोगों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की।

षड्यंत्रकारी शासन के खिलाफ गुस्से में उठेगा और उसके विसर्जन को सुनिश्चित करेगा। तृणमूल ने स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

और गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि अब सब

इतिहास इस बात का गवाह बनेगा कि कैसे बंगाल दिल्ली के

में यह प्रदर्शित होता है कि भाजपा के भीतर कितनी गहरी सडांध

है। उन्होंने कहा कि बंगाल की

प्रगतिशील सोच और संस्कृति के प्रति

हमारे राज्य को हर स्तर पर बदनाम

करने की साजिश रची। बनर्जी ने कहा

अपनी नफरत में, 'बांग्ला–विरोधियों' ने

के लिए भाजपा की एक 'साजिश' थी। कथित वीडियो में, संदेशखाली में भाजपा के मंडल अध्यक्ष होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि पूरी साजिश के पीछे पश्चिम बंगाल विधानसभा

#### गवाहों से होगी पूछताछ, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज मांगे कोलकाता, ४ मई (भाषा)।

गई शिकायत की जांच करनी होती है। यह एक नियमित प्रक्रिया है और हम बस इसका पालन कर रहे हैं और यदि आवश्यकता हुई तो हम घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं। राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने शुक्रवार को बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हए कोलकाता पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा है कि बोस ने चुनाव के दौरान 'राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अनधिकृत, नाजायज, दिखावटी और प्रेरित जांच' की आड़ में राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसे लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। उधर, तृणमूल के लोग हमलावर हैं।

तुणमुल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पद से हटाए गए कुणाल घोष ने सुलह के संकेत देते हुए शनिवार को राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन से मुलाकात की। घोष, राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बस् के साथ दोपहर में बालीगंज स्थित डेरेक के कार्यालय गए। बैठक करीब डेढ घंटे तक चली।

ने की डेरेक से मुलाकात

तणमल कांग्रेस ने पार्टी के रुख से अलग बयान देने के लिए बुधवार को कुणाल घोष को पार्टी के पश्चिम बंगाल महासचिव पद से हटा दिया था। तृणमूल ने यह कदम कोलकाता उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार तापस राय के साथ उनके मंच साझा करने और उनकी प्रशंसा करने के कुछ घंटों बाद उठाया। घोष को पद से हटाने की घोषणा डेरेक ने ही की थी। बैठक के बाद बसु ने कहा, संगठन को मजबूत करने और भाजपा से एकजुट होकर लड़ने पर चर्चा हुई। कोई मनमुटाव नहीं है।

## राज्यपाल को संवैधानिक छूट मिलने का मामला भी उटा

राज्यपाल प्रकरण पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने एक जांच टीम का गठन किया है जो इस मामले में अगले कुछ दिनों में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगी। हमने राजभवन से सीसीटीवी फूटेज उपलब्ध होने पर उसे साझा करने का भी अनुरोध किया है। यह पूछे जाने पर कि राज्यपाल को संवैधानिक छूट मिलने के बावजूद पुलिस कैसे जांच शुरू कर सकती है?

कुछ दिनों में गवाहों से बात करेगी और उसने राजभवन से सीसीटीवी फ़ुटेज साझा करने का टीम का गठन किया है जो इस मामले में अनुरोध किया है। संविधान के अनुच्छेद-361 अगले कुछ दिनों में कुछ संभावित गवाहों से के तहत किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके बात करेगी। हमने राजभवन से सीसीटीवी कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक फुटेज उपलब्ध होने पर उसे साझा करने का भी अनुरोध किया है। यह पूछे जाने पर कि पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने एक जांच राज्यपाल को संवैधानिक छुट मिलने के

मिजोरम में जीएसटी संग्रह अप्रैल में रिकार्ड ५२ फीसद बढा

#### एजल, 4 मई (भाषा)।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि राज्य में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अप्रैल में रिकार्ड 52 फीसद बढा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए लालदुहोमा ने शुक्रवार को कहा कि मिजोरम में अप्रैल में जीएसटी संग्रह 108 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी महीने में राज्य का जीएसटी संग्रह ७१ करोड रुपए रहा था। उन्होंने जीएसटी संग्रह में वृद्धि का श्रेय राज्य के वित्त, योजना और कराधान विभाग द्वारा किए गए बड़े प्रयासों को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, जीएसटी संग्रह में वृद्धि का कारण वित्त, योजना और कराधान विभागों द्वारा बडे पैमाने पर किए गए प्रयास हैं। विशेष रूप से जनता और व्यापारिक समुदाय हमारे राजस्व को बढाने के लिए कर देने के महत्व से अवगत है । उन्होंने दावा किया कि विधायकों और अधिकारियों द्वारा लागू किए जा रहे कम खर्च के उपायों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिरता की ओर बढ रही है। इससे सरकार के कामकाज में प्रगति देखने को मिल रही है।

#### प्रत्याशियों को रसदार फल और मीसा भारती ने आरोपों के जांच की मांग की सलाद दिला रही गर्मी से राहत पटना, 4 मई (भाषा)। भारती ने यह भी कहा, ऐसा लगता है कि राजद सांसद मीसा भारती ने शनिवार को

बावजूद पुलिस कैसे जांच शुरू कर सकती

है? पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने

कहा कि किसी भी शिकायत, खासकर किसी

महिला से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू

करना एक नियमित प्रक्रिया है। पुलिस

अधिकारी ने कहा, हमें किसी के भी द्वारा दी

### कोलकाता, ४ मई (भाषा)।

कोलकाता, ४ मई (भाषा)।

कोलकाता पुलिस ने राज्यपाल सीवी

आनंद बोस के खिलाफ एक महिला कर्मचारी

द्वारा लगाए गए यौन उत्पीडन के आरोपों की

जांच के लिए एक जांच टीम का गठन किया

है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार

को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने

कहा कि टीम अपनी जांच के तहत अगले

कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए प्रचार के दौरान भीषण गर्मी से बचने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपने आहार में प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ, रसदार फल और सलाद को शामिल कर रहे हैं।

आसनसोल सीट से भाजपा के उम्मीदवार एसएस अहलुवालिया (73) ने भीषण गर्मी के कारण चुनाव प्रचार में आ रही बाधाओं पर भाजपा नेता ने कहा, मैं चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता हूं और सुबह-शाम चार-चार घंटे प्रचार कर रहा हुं। कभी-कभी मैं अपने खुली छत वाले वाहन का हैंडल नहीं पकड़ पाता हं, क्योंकि वह इतना गर्म हो जाता है कि त्वचा झुलस जाती है। इससे बचने के लिए मैं अपनी हथेली पर एक तौलिया लपेटता हूं।

अप्रैल महीने के आखिरी दिन मंगलवार को कोलकाता का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य की राजधानी में 50 वर्षों में सबसे अधिक तापमान था।

अलग-अलग राजनीतिक दलों से होने बावजुद उम्मीदवार भीषण गर्मी के बीच स्वस्थ रहने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से माकपा की उम्मीदवार सायरा शाह हलीम की आहार सची में पानी, फल, फलों का रस और सलाद शामिल हैं। हलीम ने दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अपने दैनिक प्रचार अभियान की दिनचर्या सुबह साढ़े सात बजे से पर्वाह्न 10 बजे तक और शाम चार बजे से रात नौ बजे तक निर्धारित की है। मैं शरीर में पानी की उपयुक्त मात्रा रखने के लिए खूब पानी, नींब पानी और फलों का रस पीती हं।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की गहन जांच की मांग की। राजद अध्यक्ष लाल प्रसाद की बेटी मीसा ने भाजपा में प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों से आने वाले कई लोगों के होने के बावजूद राजनीति में परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए सत्तारूढ दल की आलोचना की।

पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने कहा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय के खिलाफ आरोप चिंता का विषय है। मामले में गहन जांच और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल राजभवन के एक संविदा कर्मचारी ने बोस के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राजभवन ने आरोपों

भाजपा के साथ के लोग सभी गलत कामों से बच सकते हैं। 'परिवारवाद' के आरोप को देखें जो वे हम पर थोपते रहते हैं, वे खुद को क्यों नहीं देखते।

को नाटकीय कहानी बताया है। श्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले में 'चुप्पी' पर सवाल उठाया है। भारती ने यह भी कहा, ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ के लोग सभी गलत कामों से बच सकते हैं। 'परिवारवाद' के आरोप को देखें जो वे हम पर थोपते रहते हैं, वे खुद को क्यों नहीं देखते। बहत सारे लोग जिनके राजनीतिक कद का श्रेय उनके परिवारों को जाता है, को भाजपा द्वारा संरक्षण दिया गया है। उधर, इस घटना को लेकर राज्य में राजनीति गरमा गई है। भाजपा के लोग भी घबराए हुए से लगते हैं। खास बात यह है कि इस चुनावी मौसम में हर कोई इसका लाभ लेना चाहता है।

राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने शुक्रवार को बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। राजभवन ने एक बयान जारी कर कहा है कि बोस ने चुनाव के दौरान 'राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अनधिकृत, नाजायज, दिखावटी और प्रेरित जांच' की आड़ में राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसे लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। उधर, तृणमूल के लोग हमलावर हैं।

गौरतलब है कि इस मसले पर अब पूरे देश में राजनीति गरमाने लगी है। गैरभाजपा दल राज्यपाल पर हमलावर हो रहे हैं।



लड़ रहे हैं। फिल्मी हस्तियों की संख्या के लिहाज से राज्य की लिए टीलागज के आभनता दापक आधकारा उफ दव को की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पहले की तरह इस बार भी अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे है। राज्य में जादवपुर और मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्रों से समकालीन लोकसभा चुनाव लड़ रहे नौ फिल्मी सितारों में से छह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं राज्य में विपक्षी दल भाजपा ने दो फिल्मी हस्तियों को टिकट दिया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शाताब्दी राय को बीरभूम से उम्मीदवार बनाया है जो स्रोय अभ्य का अटल एव टीलायुड कलाकार हिरन चंटजा भारत एव टीलायुड कलाकार हरन चंटजा शामिल हैं। देव ने कहा, मेरा सपना घाटल 'मास्टरप्लान' शामिल हैं। देव ने कहा, मेरा सपना घाटल 'मास्टरप्लान' शामिल हैं। देव ने कहा, मेरा सपना घाटल 'मास्टरप्लान' गां प्रखुत कले के लिए क्षा का है। जां वयपुर और मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्रों से समकालीन उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस ने 80 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्री को टिकट दिया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	
<ul> <li>स्वारूद एल को किसी तरह का फायदा होगा। हमने बेहद चतुराई से उम्मीदवारों को मैवन में कांग्रेस ने कोकराड़ार और बारपेटा सहित चार, मच मई मौतीपुर के मौरसेडी गर्क, क्य का क्य ख्युआत की प्रायस में कुछ लोकसभा सीट पर एक-दूसरे करीमां जी से त्वांचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार तारा है । यहा हुब्द फैक्टरी में आग तन मूं ! इससे भारी नुकसान हुआ है ।</li> <li>प्रिटिम खंठाल</li> <li>र्फाल पर एक-दूसरे करीमां जी हुम के बेहद चतुराई से उम्मीदवार वा ता है । जारहा ट, नगांव, युवरी और ता ता ह के जहा राता मह को मतदान हो ता है ।</li> <li>र्फाल पर एक-दूसरे करीमां जी हुम के बेहद चतुराई से उम्मीदवार वा ता है ।</li> <li>र्फाल पर एक-दूसरे करीमां जी हिस्त पर एक-दूसरे करीमां जी हिस्त पर करीमां की स्वारम में आरोप जिस्स में प्रायस में उतास के का के क्य ख्युआत की स्वारम से के संवर कर नहीं के ता के क्य का करी का का कर कर कर कर के बाले हिस्त या का नुवार तही है ।</li> <li>र्फाल पर एक टूसरे के कि स्वारम के का कर हम कर का कर हम कर का कर हम कर कर कर कर कर कर कर कर कर हम के वा ता हर के के ता के हम कर कर हम के बाले हम कर कर हम ते का कर हम कर कर हम के का कर हम कर कर हम कर कर ता कर हम कर कर हम कर कर हम कर कर ता कर हम कर कर हम हम हम कर हम कर हम कर हम कर हम हम हम हम कर हम हम</li></ul>	03 <b>4</b> , 2024
उत्तोंने बाबा किया कि भले ही बिपक्षी बल उतारा है। जैरहार, नगांव, धुबरी और निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीपवार उतारे है, मैं प्राह्युढ कैन्दरी में आग तग गरं! इससे भारी नुकसान हुआ है। <b>एएटटाम खंगाल</b> <b>एपट्टाम खंगाल</b> <b>राष्ट्रिटाम खंगाल</b> <b>राष्ट्रिटाम</b> <b>राष्ट्रिटाम खंगाल</b> <b>राष्ट्रिटाम खंगा</b> <b>राष्ट्रिटाम खंगा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिटा</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्रिट</b> <b>राष्ट्र</b> <b>राष्ट्र</b> <b>रा</b> <b>राष्ट्र</b> <b>राष्ट्र</b> <b>राष्ट्र</b> <b>राष्ट्र</b> <b>राष्ट</b>	29 अक्टूबर, 2024 ( ऋगशोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की लिथि से 180 दिन)
पश्चिम बांगाल       रुपहले पर्द के दिग्गजों को सियासत में उतारने का चलन बढ़ा         पश्चिम बांगाल       में द्वा के प्राहत यहांगिंग फिल्म एवं टीवी जगत के एक प्रमुख विकेतता को चुनाव में तान में उतारने का चलन इस आप का स्वार के प्रान में उतार के वार्ग के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात के प्रात प्रात की सितारों के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा को हतिर दा तीर के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा को सत्तार ह तानी के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा की सत्तार के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा की सत्तार के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा को सत्तार ह तानी के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा की सत्तार के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा की सत्तार ह हैं। फिल्मी हसितयों के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा को सत्तार ह तो फिल्मी हसितयों के साथ कंश्वे से कंशा मिलाकर खुमा को सत्तार ह तो मिल्मी सितारों में सडया के विहाल वा ताव्य प्र और मेंदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्रों से समकालोन की दिवाट दिया है, जबकि मार्कसंवार कि न्या हा था ताव्य प्र और मेंदिनीपुर निर्वाचन के की कि एक की तिहाय संगा का त्य्य प्र को मिल्मी सितारों में सडया की सत्तार के मार्कसंवा के स्वार के की शिवाल स्वार ताय में अपमें स्वार हिंग ताय मुगा को में दे कहा ने प्रता की साय ताल कि स्वार का स्वार स्वार मारा स्वार ताय में अपमें स्वार हिंग च्वा के साथ कि स्वार ताय में अपमें स्वारा स्वार हा ताय में अपमें वा वारा स्वारा हो। माता ही वा तो कहा कर मार्ग के का ही राज स्वार की सत्तार स्वार मा है। प्रात ता ता साथी ने वा के स्वार के स्वार के की कि स्वार का ताय में राज से स्वार के को ही राज्य के ताय में राज स्वार हो स्वार ताय में अपने की कि कुछ और समय ताक मुद्रे राजनी ताय ताय में का स्वा वा तिए प्रात को को हो राज्य को सत्ता स्वा हा	भिन्हानल का नाम पंजीकरण से. IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616
<b><u>च</u>ुनाव पैदान में अभिनेत कि दलां छारा रुपहलं पर्ने हा जिप्पे मांग बनर्जी ने 20 और 80 के दशक के बालीवुड की क्षेत्र में के आपकेता के देव के दशा के के वालीवुड के ताक्ष के प्रमुख गाने में प्रमुख राजनीतिक दलों छारा रुपहलं पर्ने हा जरात है ना बनर्जी ने 70 और 80 के दशक के बालीवुड अभिनेता हो रुपपूल कांग्रेस ने आपके ताक्ष के अभिनेता को उम्मीदवार बनाया है। तुपपूल कांग्रेस के 20 के दशक के बालीवुड अभिनेता हो रुपपूल कांग्रेस के आपकेता के उम्मीदवार वनाया है। तुपपूल कांग्रेस के 20 के दशक के बालीवुड अभिनेता हो रुपपूल कांग्रेस के अध्य के अध्य के अध्य के अध्य के अभिनेता को उम्मीदवार वनाया है। तुपपूल कांग्रेस के 20 के दशक के वालीवुड अभिनेता दीपर अध्य क्ष के बालीवुड अभिनेता हो रुपपूल कांग्रेस के अभ्य के अभी के ता ताता है। त्र प्रमुख राजनीति सिरा के उम्मीदवार वनाया है। त्र प्रमुख राजनीति के रहा के अभिनेता को उम्मीदवार वनाया है। त्र प्रमुख राजनीति कि दलों हो हो प्रमुख के अभी के उम्मीदवार वनाया है। त्र प्रमुख त्र अधे के दशक के वालीवुड अभिनेता दीपर अधिकारी उर्फ देव के वार ताता है हो के की यंक्र प्रमाध वार ता के रहा कु को क्षेत्र में अध्य कि तातर इस का वात्य पुर और में देतगार तिया के अभिनेता ने राजवा है। त्र प्रमुख ताती है। त्र उम्मीदवार है। त्र प्रमुख ताती है कि लिए का अधिक ता से विजय के प्रमुख ताता है। त्र प्रमुख ते अभी ते तातात है का प्रकर को वालेकि प्रम अधिकार उर्फ देव के वात्य तुप्र को में देतगार ते पारल राजवा है। त्र प्रमादवार त्वाता है। त्र प्रमादवार त्वाता है। त्र प्रमादवार त्वाता है। त्र प्रमादवार त्वाता है। त्र प्रमादवार हो वा लिप्रम अधि आपक का का क्षेत्र के अधने वा प्रक्ष के व्यक्त के वात्य प्रकर के वाले विजय के प्रम के वात्य हो त्य प्रभा जताता है। त्र प्रमादवार त्वाता है ते प्रम त्या का वात्य के प्रम त्य ता भा हो ते त्य के वात्य के प्रम के वात्य का प्रकर के वाले का क्ष के हत्य के वात्य का जा के त्य के वात्य का जा के त्य के वात्य के व्यकत के त्य के व्यकत के वात्य का जा के त्य के व्यकत के त्य के व्यकत के वात्य का जा के त्य के व्यकत के त्य के व्यकत के वात्य का जा के त्य के व्यकत के व्यकत के व्यकत के व्यकत के व्यकत के वात्य का जा के त्य के व्यकत के त्य के व्यकत के क्या के व्यकत के वा का क्य के व्यकत के वात्य का जा के त्य के </b>	वद्ध है। व्याख थी, खाडरिया एंड कंपनी, डए तथा डवी रात्यम रावमं, 3 अल्वीपुर रोड, कोलकात, पश्चिम चंपाल -700027 ई: kshitiz@becoindia.com (एएकए 22 जनवरी 2025 तक वैथ)
$\frac{\dot{\Phi}}{\partial t} \left( \theta \right) \left[ \frac{\dot{\Phi}}{\partial t} \right] \left\{ \frac{\dot{\Phi}}{\partial t} \right\} \left\{ \frac{\dot{\Phi}$	धितिव खल्मिया, खाख जोटी रीम्ट्रक्रारिंग सर्विसेव एलएलपे, चूनिर 1603 और 1604, इवरे सेंटर, प्लॉट नें. 4, गली नंबर 13, इंग्रेस व्लॉक, सेक्टर-ची, विधानसग, कोलवाजा -700091, पश्चिम वंगाल ई: ip.ankitmetal@gmail.com
$\frac{\dot{\rho}}{\rho}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ \xi (H \ H \ H))$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ H \ H)$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ H \ H)$ $\frac{\dot{\rho}}{\mu}(eport, 4 \ H \ H$	17 मई, 2024 (एनसीएलटी आदेश की प्रति प्राण होने को तिथि से 14 दिन)
पश्चिम बंगाल में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा रुपहले पर्व की हरितयों को चुनाव मैदान में उतारने का चलन इस आम चुनाव में भी बदरतूर जारी है, जहां गुजरे जमाने के अभिनेता समकालीन सितारों के साख्य के प्रेस ने का प्रेसनों के राज्य लड़ रहे हैं। फिल्मी हरितयों के साख्य के लिहाज से राज्य की सतारूढ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस के अभनेता सायोनी घोष और जून मालिया को तादवपुर और मेदिनीपुर निर्वाचन क्षेत्रों से समकालीन को टिकट दिया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को हटितर दिया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	लॉन (म्र) के तहत प्रयोज्य की
ति प्राप्त के साथ की स्वस्तूर जारी है, जहां गुजरे जमाने के अभिनेता समकालीन सितारों के साथ की से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। फिल्मी हस्तियों की संख्या के लिहाज से राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पहले की तरह इस बार भी अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे है। राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ रहे नौ फिल्मी सितारों में से छह तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार वानाया है। वहीं राज्य में विपक्षी दल भाजपा ने दो फिल्मी हस्तियों को टिकट दिया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्राताब्दी राय को बीरभूम से उम्मीदवार बनाया है जो चौथी को दिरमूट दिया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	तु चिनित अल
$ \begin{array}{l} \left( reg reg reg reg reg reg reg reg reg reg$	(ক) देव लिक। https://ibbi.gov.in/home/downloads (ক) प्रयोज्य नहीं
(माकपा) ने विपक्षी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बार लोकसभा सदस्य बनने को प्रयासरत हैं। पार्टी ने हुगली करना चाहिए।	ांद ने सी.पी. (आईयी) सं. 91/केथी/2023 के मामले में अस्तित मेटल एंड पॉयर लिम्पिटेड के विरुद्ध 03 मई, 2024 । माण 17 मई, 2024 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोकेशनल के समक्ष ऊपर प्रथिष्टि 10 के समस वर्षित पते प्रस्तुत करना होगा। आन्य सभी लेनदार अथने दायों का प्रमाण दासी (व्यक्तिगत रूप से), डाक डारा अथवा इसेक्ट्रॉनिक क्षितिज छाछरिया अतिरिम समाधान प्रोफेष्ठवल अफित मेटल एंड पॉयर सिमिटेड (IBBI/IPA-001/IP-P00358/2017-18/10616) एएकम् 22 जनवरी, 2025 तक वैस ई: ip.ankitmetal@gmail.com

www.readwhere.com